

Tirupati Starch & Chemicals Ltd.

Regd. Office: Shree Ram Chambers, 1st Floor, 12 Agrawal Nagar, Main Road, INDORE-1 Phones: 0731-2405001, 4905001, 4905002, E-mail: tirupati@tirupatistarch.com

Works: Village-sejwaya, Ghata Billod, Dist. Dhar (M.P.)

10th September, 2024

TIRUSTA/SE/2024-25

To,

The General Manager,
Dept. of Corporate Services – CRD **BSE Limited**Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400 001

Reference: Security ID: TIRUSTA; Security Code: 524582 & ISIN: INE314D01011

Subject: Submission of Newspaper Publication for Notice of 38th Annual General Meeting and E-voting Information

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Ministry of Corporate Affairs General Circular No 09/2023 dated 25.09.2023 read with General Circular No.20/2020 dated 5th May, 2020, this is to kindly inform that the 38th Annual General Meeting of the Company will be held on 30th September, 2024 at 1.00 p.m. (IST), and in this connection Company has completed the dispatch of the Notice of 38th AGM and Annual Report 2023-24 by electronic mode to all the Members whose email addresses are registered with the Company/Ankit Consultancy Private Limited, Registrar and Transfer Agent/Depositories.

We are submitting herewith copy of Newspaper advertisements published by the Company in the Free Press (English Journal) & Chautha Sansar (Hindi Journal) in this regard.

Kindly take the same on record.

Thanking You.

Yours faithfully,

For Tirupati Starch & Chemicals Limited

Anurag Digitally signed by Anurag Kumar Saxena Date: 2024.09.10 12:07:38 +05'30'

Anurag Kumar Saxena (Company Secretary cum Compliance Officer)

M.No.: F8115

Encl.: As above

CIN No.: L15321MP1985PLC003181 • website: www.tirupatistarch.com

DIFFERING STRATEGIES | While Harris has been engaging in mock debates with her debating team, Trump has said he does not need any formal prep

Kamala, Don brace for debate

Harris has spent the recent

days locked in a hotel in Pitts-

burgh with her debating

team specialists digging into

the practice sessions with

mock debates against a

Trump stand-in, longtime

Clinton aide Philippe Reines,

and preparing like she

did during her years

as a prosecutor.

Trump, who had

argued that he does

not need formal

preparation such as

mock debates, has also

been meeting with senior

Trump's team has asked

advisers, policy experts and

outside allies to ready himself

the former president not to

appear overly aggressive to-

ward Harris and strike the

right tone. As with his June 27

debate with Biden, Trump's

advisers and allies have been

encouraging him to appear

more restrained while on-

stage. Many acknowledge

that such a restrained ap-

proach will be even more im-

portant this time.



WASHINGTON

With most polls by the media, including NYT, CNN and ABC News, indicating that the 2024 race to the White House will be a photo-finish and will be the most tight elections in

recent US history, the two contenders Kamala Harris of Democratic the Party and **Donald Trump** are holding 'dry-runs' for the cru-

cial face off – the presidential debate – coming Tuesday. The two candidates have taken drastically different approaches to preparing for their Tuesday showdown. No presidential nominee in the modern age has done more televised general election debates than Trump. Harris and her team have been carefully studying all six of them three with Hillary Clinton in 2016, two with Biden in 2020, and another with Biden in June — as she prepares for her turn onstage.

China announces joint naval, air drills with Russia



Agencies BEIJING

China's Defence Ministry on Monday announced joint naval and air drills with Russia starting this month, underscoring the closeness between their militaries as Russia presses its grinding invasion of Ukraine. The ministry said the "Northern United-2024" exercises would take place in the Sea of Japan and the Sea of Okhotsk farther north, but gave no details.

It said the naval and air drills aimed to improve strategic cooperation between the two countries and "strengthen their ability to jointly deal with security threats." The notice also said the two navies would cruise together in the Pacific, the fifth time they have done so, and together take part in Russia's "Great Ocean-24" exercise. No details were given. China has refused to criticise Russia's full-scale invasion of Ukraine, now in its third year. and blamed the US and NATO for provoking President Vladimir Putin.

While China has not directly provided Russia with arms, it has become a crucial economic lifeline as a top customer for Russian oil and gas as well as a supplier of electronics and other items with both civilian and military

Russia and China, along with other US critics such as Iran, have aligned their foreign policies to challenge and potentially overturn the Western-led liberal democratic order. With joint exercises, Russia has sought Chinese help in achieving its long-cherished aim of becoming a Pacific power, while Moscow has backed China's territorial claims in the South China Sea and elsewhere.

Smt.Manu Bai W/O Mangilal (Co-Borrower) Mangilal S/O Jivan (Co-Borrower)

: 09/09/2024



TIRUPATI TYRES LIMITED

(CIN: L25111MH1988PLC285197) Regd. Office: Unit No. 606, Reliables Pride, Anand Nagar, opp. Heera Panna, Jogeshwari (W), Mumbai, Maharashtra-400102 Phone: 022-26204220, E-Mail: tirupatityres1988@gmail.com Website: www.tirupatityres.com

NOTICE

- Notice is hereby given thatthe 36th Annual General Meeting (AGM) of the company is scheduled to be held on Monday, 30th September, 2024 at 2:00 PM through Video Conference (VC)/Other Audio-visual means (OAVM) at "Unit No. 606, Reliables Pride Anand Nagar opp Heera Panna Jogeshwari (W), Mumbai, Maharashtra, 400102" to transact the as put forth in he notice of the AGM.
- The Annual Report along with the Notice has been dispatched to members by permitted mode. The dispatched of notice of AGM has been completed on Friday, 06th September, 2024.
- Members holding shares as on the cut-off date, Monday, 23rd September, 2024 may cast their vote electronically (e-voting) on all the business to be transacted at AGM through e-voting facility on the platform of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. The e-voting period begins on Friday 27th September, 2024 at 9:00 a.m. and ends on Sunday, 29th September, 2024 at 5:00 p.m. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
- The notice of AGM of the company inter-alia indicating the process and manner of remote e-voting and the facility for voting through Ballot Paper shall be made available at AGM. The members who have cast their vote through remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The Registrar of members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 24th September, 2024 to Monday, 30th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.
- The notice of AGM available on the Company's Website www.tirupatityres.com and is also available on NSDL Link www.evoting.nsdl.com.
- Any person, who acquires shares of the company and become the member of the company after Dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off date of Monday, 23rd September 2024 may obtain the login IDand password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

However, If the member is already registered With NSDL for remote e-voting, then they can use their existing user ID and password for casting their vote. Any grievances in respect of remote e-voting may address to NSDL, Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills, Compound, Lower Parel, Mumbal-400013 1800-1020-990 or write evoting@nsdl.co.in.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for available at the Downloads sections https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no. 1800-1020-990.

By Order of the Board For Tirupati Tyres Limited Avinash Anil Ghorpade Managing Director DIN: 09848799

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED **INFORMATION NOTICE**

The below mentioned Borrowers & Co-Borrowers are informed to remove their movable assets from the nortgaged property (mentioned in the below table) which is going to be sold by AU Small Finance Bank Ltd. (A Scheduled Commercial Bank) through auction proceeding under SARFAESI Act. 2002, otherwise the movable assets would be transferred to any rented location at their own cost and they will also be liable for any damage caused during the shifting, if it is not removed within 15 days. For other queries contact the concerning person as

Date: 04.09.2024

Place : Mumbai

Loan A/c No. / Name of Borrower/ Co-Borrower/ Mortgagor/Guarantor	Detail of Mortgaged Property	Contact Person	
(Loan A/C No.) L9001060713225581 & L9001060815714671, Anandilal Bagda S/O Ramballabh Bagda (Borrower & Mortgagor), Smt. Chanda Devi Bagda W/O Anandi Lal Bagda (Co-Borrower & Mortgagor)	House No. 217, Commercial Plot No-33, Block No-42, Ward No-25,Village- Burhanpur ,Tehsil- Burhanpur ,Dist- Burhanpur 450331 Mp Admeasuring 905 Sq. Ft.	Radheshyam 7773000478	
(Loan A/C No.) L9001060722749974, Ajay Singh Patel S/O Sohan Singh (Borrower), Yashoda S/O/W/O/D/O Ajay Singh Solanki (Co-Borrower)	Property Situated At Gram Panchayat House No 46 Survey No 48 1 Ph No 34 New 62 Ward No 12 Village Panchmukhi Dhar Badnawar Mp Admeasuring 368.33 Sqyds	Vishal Sharma 9057042611	
(Loan A/C No.) L9001060119226041 & L9001061122066298, Vikas S/O Govind Singh (Borrower), Sajan Bai (Co-Borrower), Mishrilal Jat (Guarantor)	Property Situated At H N 135, Phn 43, Vill Dhablarehwar, Te.& Dist Ujjain, Mp Admeasuring 1092 Sq. Ft.	Vishal Sharma 9057042611	
(Loan A/C No.) L9001060117133160, Abhishek Sharma S/O Jagdishchandra (Borrower), Jagdishchandra Sharma S/O Kishan (Co- Borrower), Gayatri Sharma Co-Borrower), Gopal Patidar S/O Vishnu Prasad (Guarantor)	Property Situated At House No 1145, Ward No 5,Phn. 17, Tehsil- Mohan Barodiya, Dist Shajapur, Mp Admeasuring 600 Sqft	Jitendra Kumar 9826996666	
(Loan A/C No.) L9001060118204462, Refreshment Center (Borrower), Natvar Verma S/O Seetaram Verma (Co-Borrower), Priti Verma (Co-Borrower)	Property Situated At Ward No. 14, Ph. No. 4/1, "Gayakwad Mohalla", Gram Mhowgaon, Te Mhow, Dist. Indore, Mp Admeasuring 1600 Sq. Ft.	Vishal Sharma 9057042611	
(Loan A/C No.) L9001060118162965, Mujaffar Khan S/O Manjoor Khan (Borrower), Altab Bi (Co-Borrower), Manjur Khan (Co-Borrower) Admeasuring 164.62 Sq. Mtr.		Vishal Sharma 9057042611	
(Loan A/C No.) L9001060118976534, Pavan Tea Stall (Borrower), Rekha Bai Katariya W/O Mahavir (Co-Borrower), Mahavir Katariya S/O Parasmal (Co-Borrower) Pavan Kumar Jain S/O Paras (Co-Borrower) Anita Bai Jain W/O Pavan (Co-Borrower)	Property Situated At House No 674, Vill - Afjalpur , Tehsil & Dist - Mandsaur , Mp Admeasuring 121 Sqyds	Duyshant Soni 7049919472	
(Loan A/C No.) L9001060121637035, Sakshi Gruh Udhyog (Borrower), Anju Panwar W/O Vikas (Co-Borrower), Vikas S/O Anandrao (Co-Borrower)	Property Situated At- House No. 82/1, P.H No. 56/110, Ward No- 03, Gram Panchayat-Sejwani, Tehsil & Dist Dhar, Madhya Pradesh Admeasuring 750 Sqft.	Vishal Sharma 9057042611	
(Loan A/C No.) L9001060122584905, Lakhan Bairagi S/O Mangilal Bairagi (Borrower) , Mangilal Bairagi S/O Kuardas (Co-Borrower), Soram Bai W/O Mangilal (Co-Borrower)	Property Situated At House No 57, P.H-No. 47, Gram- Manasa, Teh - Nalkheda, Dist- Agar. MP Admeasuring 1500 Sqft	Vishal Sharma 9057042611	
(Loan A/C No.) L9001060119342749, Balaji Accessories Through It's Proprietor Rahul Deshmukh (Borrower), Rahul Deshmukh S/O Dilip Rao Deshmukh (Co-Borrower), Smt. Harshlata Deshmukh W/O Dilip Rao Deshmukh (Co-Borrower), Dilip Rao Deshmukh S/O Moti Rao Deshmukh (Co-Borrower)	Property Situated At House No. 84 & 86, Maratha Mohalla, Friganj, Shujalpur Mandi, Ward No. 21, Te Shujalpur, Dist Shajapur, Madhya Pradesh Admeasuring 483.2 Sq. Ft.	Jitendra Kumar 9826996666	
(Loan A/C No.) L9001060116437006, Sumer Singh S/O Shankar Singh Sendhav (Borrower), Krishanpal Sendhav S/O Gajraj Singh (Co-Borrower), Gajraj Singh S/O Shankar Singh (Co-Borrower)	House No-92, P.H.No20, Ward No07, Vill Bedamaou, Tehsil-Bagali, DisttDevas, Mp Admeasuring 3768 Sq. Feet	Mukesh Choudhary 6262001490	
(Loan A/C No.) L9001060121587242, Mithun Gupta S/O Radheshyam Gupta (Borrower), Smt. Smita Gupta W/O Mithun Gupta (Co -Borrower)	Property Sitauted At House No 341, Ward No. 02, Navalpura Mohalla, Te Rajpur, DistBarwani, Madhya Pradesh "Property Area As Per Documents 960 Sq.Ft. But Physically Available 880 Sq Ft."	Radheshyam 7773000478	
(Loan A/C No.) L9001060718679213, Shoukat Mohammad & Chand Mohammad (Borrower), Smt.Lado Bai (Co-Borrower), Shaukat Mohammad S/O Haji Chand Mohammad (Co-Borrower) Smt.Meharu Nisha (Co-Borrower), Smt. Lado Bai (Co-Borrower)	Property Situated At- Survey No- 599/1, 599/12, Ward No- 08, Chambal Sagar Colony Ke Samip, Gram & Teh Nagada, Dist Ujjan, Madhya Pradesh Admeasuring 300 Sqyds	Bhupendra Sing Panwar 7610210432	
(Loan A/C No.) L9001060121613972, Sumer Singh S/O Narval Singh (Borrower), Naraval Singh S/O Umarav (Co-Borrower), Smt. Laxmi Bai W/O Narval Singh (Co-Borrower)	Property Situated At Hn 426, Phn 61/103, Ward No 10, Vill - Kadodkalan, Tehsil - Badnawar, Dist - Dhar, Madhya Pradesh Admeasuring 200 Sqyds	Vishal Sharma 9057042611	
(Loan A/C No.) L9001060131496961, Kapil Krishi Seva (Borrower), Anil S/O Mangilal (Co-Borrower), Kapil Singh (Co-Borrower)	Property Situated At- H No- 119, Ph No- 29, Saral No- 1196, Vill- Guradiyahatu, Gram Panchayat- Lasudliyahatu, Tehsil- Hatpipliya,	Mukesh Choudhary 6262001490	

Dist- Dewas, MP Admeasuring 1850 Sq.Ft.

Authorised Officer

AU Small Finance Bank Limited

'E' TENDER NOTICE Divisional Electrical Engin Traction Distribution, Western Railway Ratlam for and on behalf of President o Union of India invites e-tenders to the following work: Tender No .: EL/TRD/58/2024-25/09 Name of the work:- TRD work in connection with replacement of rusty equipment a Nagda Grasim siding of Ratlan Division. Estimated cost of work: Rs. 61.63.652.48/- Earnest Money Deposit/ Bid Security:- Rs. 1,23,300/-Completion period:- 08 Months, Cost of tender document:- Nil. Closin date and time:- 03.10.2024 at 15:00 hrs, Validity of offer:- 60 days from the date of opening, Website details: www.ireps.gov.in, Notice board location:- In front of the office of Sr Divisional Electrical Engineer (Traction Distribution), Western Railway, Ratlan Sr.DEE/TRD

Like us on : f facebook.co

WESTERN RAILWAY - VADODARA DIVISION WESTERN RAILWAY ENGINEERING WORK E-TENDER NOTICE NO-DYCE-BR-BRC **Material Management Department VARIOUS MATERIALS SUPPLY** 6R-2024 e-Tenders for and on behalf of th E-PROCUREMENT TENDER NOTICE No. S/49/2024 Date- 06.09.2024 resident of India are invited by Deput Chief Engineer (Bridge-line) Vadodara Short Description of item Quantity T.O.D. Vestern Railway, Pratapnagar, Vadodara Main compressor (Oil lubricated 60 Nos 03-10-24 390 004 for the following works. Name o Silicon rectifier block 22 Set 03-10-24 Work & Tender No : DYCE-BR-BRO 20 Nos 07-10-24 6R-2024 Name of Work :- "Replaceme Arno converte corroded top gussets, lateral bracing Kit for isolating cock 2384 Set 07-10-24 defective rivets on Br No.2 DN,94DN,120DN,145DN in the jurisdictio Elastic Rail Clips (ERC-J TYPE) RDSO DRG, No. T-8258 500000 Nos 07-10-24 SSE BRUJN of RTM Division"(Reinvite 617 Brake gear bush for ICF coaches 235596 Nos 14-10-24 "Approximate cost of the work (In Rs 618 Electronic rectifier cum regulator 40 Nos 14-10-24 .70,82,130.60 Bid Security to be 11847 Nos 14-10-24 leposited (In Rs): ₹2,35,400.00 Date an Silent block for anchor link time for submission of e- tender and opening of e-tender: On line tender is to be 110 Volts brushless DC fan fixed type 4088 Nos 15-10-24 621 Set of LP-HP cylinder Knorr Bremse Compressor 310 Set 15-10-24 mitted on 27.09.2024 before 15.00 Hrs Set of LP-HP Valve for Knorr-Bremse Compressor 149 Set 21-10-24 and is to be opened on same date at 15.3

REVERSE AUCTION 48 Un-insulated Cadmium Copper Catenary Wire125 Sq.mm

Regarding detailed notice EMD, Purchase restrictions and detailed tender conditions, please visit website <u>www.ireps.gov.in</u> and wr.indianrailways.gov.in Like us on:

f facebook.com/WesternRly ● Follow us on:

X.com/WesternRly

Like us on: f facebook.com/WesternRly

irs. Web side particulars and notice for

cation where complete details can b

seen etc: Deputy Chief Engineer(Bridg

ine) Vadodara, Western Railway

Pratapnagar, Vadodara-4 Web sit

AXIS BANK LIMITED Registered Office - Trishul, 3rd Floor, Opp. Samartheswar Temple, Near Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006. Structured Assets Group at Corporate Office - "Axis House", 7th Floor, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400025. ww.axisbank.com; Email id : payal.kapila@axisbank.com; nilay.shar

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES ppendix IV-A [Read with Rule 8(6)] of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 -Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisat econstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

'SARFAESI Act") read with proviso to rule 8(6) and Rule 9 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower i.e. M/s. Manish Vegetable Product and Guarantors/Mortgagors i.e. Shri. Mahesh Agrawa Smt. Neetu Agrawal, Shri. Manish Agrawal and Shri. Mitesh Agrawal that the belo described immovable property mortgaged/charged to Axis Bank Limited i.e. Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Axis Bank Limited i.e., Secured Creditor on 17th May 2024, will be sold on "AS IS WHERE S", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS" AND "NO RECOURSE BASIS" on 03' October, 2024 for recovery of Rs. 7,68,78,402.04 (Rupees Seven Crore Sixty Eight Lakt Seventy Eight Thousand Four Hundred and Two and Paise Four) being the amount due a: on 31" August 2023, as mentioned in Demand Notice dated 12th September 2023 bearing eference No. AXIS/SAG/PRK/2023-24/314 issued u/s. 13 (2) of SARFAESI Act, along with urther interest thereon w.e.f. 01" September,2023 at contractual rate of interest till the date of

ayment, incidental expenses, other charges, costs etc. due from M/s Manish Vegetable Product and the Guarantors/Mortgagors to Axis Bank Limited i.e. Secured Creditor. he description of mortgaged assets/properties for sale along with reserve price and the

Description Of Property	Reserve Price	EMD Amount	
All that pieces and parcels of Residential Land and Building at Nazul Block 2, Sheet no.5, Plot No 95/1, 95/2 and 120, Barrak N04, Anand Nagar, Khandwa area 3686 Sq ft. in the name of Mrs. Neetu Agrawal Bounded As: North: House of Chawlaji; South: 30 Ft Wide Road; East: 30 Ft Wide Road; West: 30 Ft Wide Road	92,90,000/- (Rupees Ninety Two Lakh Ninety Thousand)		

xis Bank Ltd. had issued notice u/s 13(2) of the Securitization and Reconstruction inancial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (Act 54 of 2002 "SARFAESI Act") on 12" September 2023 bearing reference No. AXIS/SAG/PRK/2023 24/314 calling upon the Borrower/Guarantors/Mortgagors to pay the amount mentioned n the said notice. After expiry of 60 days' notice period, the Authorised Officer of Axis Bank Limited has taken physical possession of the above mentioned mortgag

The online hids shall be submitted as per schedule given below:

The offille blus sila	il be sublitted as per scriedule given below			
EMD Remittance	Demand Draft/Pay Order in the favour of 'Axis Bank Ltd.' drawn on a Scheduled Bank and payable at Mumbai/Khandwa to be submitted on or before 01" October, 2024 by 12:00 p.m. at any of the following address of the Bank: • Ms. Payal Kapila/Mr. Mateen Shaikh: Structured Assets Group, Corporate Office, "Axis House", 7th Floor, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai – 400025 • Mr. Vaibhav Khede: Wholesale Banking Centre, Shri Nagar Colony, Khandwa Indore Road, Khandwa, Madhya Pradesh-450001			
Inspection of Property	of Only with prior appointment. For inspection, please contact Mr. Mateen Shaikhon 8108478753			
Date, Place and time of auction	E-auction on 03 rd October, 2024 between 12:00 p.m. to 01:00 p.m with auto-extension of five minutes each in the event of bids placed in the last five minutes.			
Bid Increment Amount	Rs.1,00,000/ - (Rupees One Lakh Only)			
Encumbrances (to the extent known to the Bank)	 Axis Bank Ltd. had filed recovery proceeding i.e. Original Application No 457 of 2024 ("OA") against M/s. Manish Vegetable Product and Guarantors/Mortgagors i.e. Shri. Mahesh Agrawal, Smt. Neetu Agrawal, Shri. Manish Agrawal and Shri. Mitesh Agrawal for recovery of outstanding dues in Hon'ble Debts Recovery Tribunal, Jahalpur, The said OA is pending for Adjudication. 			

 M/s. Manish Vegetable Product and Guarantors/Mortgagors ha filed Securitization Application No. 831 of 2024 in Hon'ble Debts Recovery Tribunal, Jabalpur and the next date is 30-09-2024. al building (which was

was demolished by the mortgagor and the said land is vaca however debris of the demolished building is still lying at the land/site For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided

https://www.axisbank.com/auction-notices and/or https://axisbank.auctiontiger.net Date: 10th September, 2024

Date: 09.09.2024

TIRUPATI STARCH & CHEMICALS LIMITED

CIN: L15321MP1985PLC003181
Registered Office: Shree Ram Chambers, 12, Agrawal Nagar Main Road, Indore-452 001 (M.P.) Phone: 0731-4905001, 4905002 E-mail: tirupati@tirupatistarch.com, Website: www.tirupatistarch.com

Notice of 38th Annual General Meeting, Remote E-Voting Information

Notice is hereby given that in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and SEBI, the 38th Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Tirupati Starch & Chemicals Limited ('Company') will be held Physically as well as through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on Monday, the 30th day of September, 2024 at 1:00 PM (IST) at the registered office of the Company at Shroe Pam Chambers, 12 Agrayal Neary Main Road Indexe 45:2001 (MR) Shree Ram Chambers, 12, Agrawal Nagar Main Road, Indore-452001 (M.P.) to transact the businesses as set out in the Notice of AGM sent to Shareholders. In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, Notice of the

aGM along with the MCA Circulars and SEBI Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2023-24 has been sent through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories. Members may note that the AGM Notice and Annual Report 2023-24 are also available on the Company's website www.tirupatistarch.com. Such Notice and Annual Report can also be accessed from the website of Stock Exchange i.e. BSE Limited at w.bseindia.com and website of the CDSL at www.evotingindia.com Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of

Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing the facility to its members to exercise their right to vote through remote e-voting. Further, all members are hereby informed that:

1. The business as set out in Notice of AGM shall be transacted through remote

- e-voting facility provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com during the remote e-voting period and voting at the AGM. The remote e-voting facility shall commence on Friday, 27th September, 2024 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Sunday, 29th September, 2024 at 5.00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled for voting thereafter. The Company has fixed Monday, 23rd September, 2024, as the "Cut-off
- Date" for identifying the members who shall be eligible for participation in the The voting rights of the members shall be reckoned in proportion to their
- share in the paid-up equity share capital as on the cut-off date. Once the vote on a resolution stated in this notice is cast by a member through remote e-voting, the member shall not be allowed to change it subsequently A person who is not a member as on the cut-off date should treat notice of this meeting for information purpose.
- The facility for voting through polling paper and e-voting shall also be made available at the meeting and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to
- Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of this Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. **Monday, 23rd September, 2024** should follow the instructions for e-voting as mentioned for FIRSTTIME USER in notes to the Notice. If, any person is already registered for e-voting with CDSL, the person can use existing user id and password for e-voting.
- Members are requested to carefully refer the detailed instructions regarding the remote e-voting & AGM as provided in the notes to the Notice of AGM.
- Members who have not registered their e-mail address with the Company are requested to submit their request to Ankit Consultancy Private Limited by submitting the prescribed forms as available on their website www.ankitonline.com or at Company's website at www.tirupatistarch.com. Members holding shares in demat form are requested to register / update their e-mail address with their Depositor Participant(s) directly.
- All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to **Mr. Rakesh Dalvi**, Sr. Manager (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A-Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013 or send an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call Toll

Pursuant to the provision of Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and ure Requirements) Regulations, 2015 Share Transfer Books will remain closed from Tuesday, September 24, 2024 to Monday, September 30, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the aforesaid AGM.

By order of the Board Tirupati Starch & Chemicals Limited

Anurag Kumar Saxena (Company Secretary)

HOUSING FINANCE 1, Main road of High Court, MG Road, South Tukoganj, Indore (M.P.

DEMAND NOTICE

(Demand Notice under section 13(2) of the securitization of financial assets & reconstruction and security interest Act 2002), (1) Sr. No. (2) Loan A/c No. (3) Borrowers Name & Address (4) Property Address (5) Sanction Amount & Date (6) O/S Amount Due.

Sr. No.	LoanNumber Demand Notice Date	Name of Applicant/ Gurantors and Address	Address of Property	Sanction Date Sanction Loan ₹	Amount Due in
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	120400003268	MR KANHAIYALAL SAHOO H NO. 397, SECTOR -N, SILICON CITY, A.B. ROAD RAU, INDORE, M.P.	H NO. 397, SECTOR -N, SILICON CITY, A.B. ROAD RAU, INDORE, M.P.	14/06/2012 11,00,000/-	7,42,502.38 + Interest & other Charges
2.	120400024632	MR RAMJI LAL MS SANJO VILL GORMI GORAM, BHIND, M.P.	PLOT NO. 103, SHREE KRISHNA PREMIUM CORIDOR, LIMBODAGIRI, SUPER CORRIDOR, INDORE, M.P.	10/00/2020	8,95,906.81 + Interest & other Charges
3.	120400028681	MS VARUNA MAUSAM CHATURVEDI H NO. 101, KALANI NAGAR, BIJASAN ROAD, INDORE, M.P.	H NO. 78, RUKMANI NAGAR, NEAR CHHOTA BANGARDA, M.P.	07/10/2022 27,00,000/-	27,54,795.02 + Interest & other Charges
4.	120400024475	MR VIKAS JAIN MS HITESHREE H NO. 94, DHANWANTRI NAGAR, RAJENDRA NAGAR, INDORE,	H NO. 104,87, ABHIMAN TWINS-B FIRST FLOOR, NEAR RAJENDRA NAGAR, INDORE, M.P.	2901/2020	11,50,459.83 + Interest & other Charges
5.	120400019981	MR JAGDEEPENDRA SINGH MS DURGA BAI GOUD H NO. 34, VIVEK NAGAR, NEAR RAM RAHIM NAGAR, DEWAS, INDORE, M.P.	H NO. 34, VIVEK NAGAR, NEAR RAM RAHIM NAGAR, DEWAS, INDORE, M.P.	ET/TT/201/	18,37,911.39 + Interest & other Charges
6.	120400015533	MR INDERJEET SINGH TUTEJA H NO. 23, 24, PAGNIS PAGA, NEAR HARSIDHI, INDORE , M.P.	H NO. 101, SWATI APARTMENT, WARD NO. 12, PAGNISPAGA, NEAR HARSIDDHI, INDORE, M.P.		13,08,208.27 + Interest & other Charges

On your request we have sanctioned home loan to you in the form of financial amount as per the conditions in the agreement, which was accepted by you. (1) Details regarding the sanctioned amount of loan, date of sanction and your account number is mentioned above. (2) As you are aware that loar amount disbursed to you is secured against above mentioned (Column No. 4). Assets/ Security contract (secured asset). For this you have executed the necessary documents and pledged as security. (3) We also inform you that frequent notices were served upon you to repay the total amount of loan and you were requested orally also for the same but so far you have not settled the amount of loan. You are therefore at a serious fault for the repayment of the loan. (4) Upto today's date you are liable to pay the above amount column No. 6). (5) Due to the reasons mentioned above, we hereby inform you that you that you pay the total amount payable by you within 60 days of receipt of this notice, if the amount is not paid, we shall use the powers entrusted to us under section 13(4) of the secrutization act. (6) The amount realised after acting under the above powers will firstly be used for all the expenses and charges, which in our opinion have been spent genuinely or related to the matter. The remaining amount will be used to clear our dues upto to days date 30.09,2024 to execute the agreement as mentioned above and the balance amount (if any) will be paid to you (7) Under section 13(13) of the act be informed that you can not transfer/ sale/ mortgage any of the secured assets mentioned in this notice, after you have received the notice without a written and complete permission from the loan payer. (8) Under section 13(10) of the act we also inform you that if the amount of loan given by us is not cleared after the sale of the secured assets, we have right to take up the case against you in the Debt Recovery Tribunal (DRT). Thi Demand Notice is being published in two newspapers.

By Orde Date: 10.09.2024 Place: INDORE Authorised Office LIC Housing Finance Ltd

सिगरेट पीने से मना किया तो मारा चाक

इंदौर । शहर में कल मामूली बात पर दो जगहों पर चाकू चले। एक जगह एक युवक को उसके ही साथी ने महज इस बात पर चाकू मार दिया क्योंकि उसके कहने पर उसने सिगरेट नहीं पी थी। मामला एरोड्रम थाना इलाके का है। वारदात कल भाटिया पेट्रोल पंप के नजदीक हुई। घायल का नाम सनी पिता देवराज निवासी गाडी अञ्च हरिजन कॉलोनी है। उसकी शिकायत पर उसके दोस्त काल उर्फ जतिन पिता राजेश वर्मा के खिलाफ प्रकर ा दर्ज किया गया है। फरियादी ने पलिस को बताया कि आरोपी ने उससे सिगरेट पीने की जिद की। उसने मना किया तो आरोपी नाराज हो गया। उसे गालियां देने लगा। गालियां देने से मना किया तो मारपीट करते हुए चाकू घोंप दिया। इधर राऊ इलाके में रंजीत पिता लखन पवार पर हमला हुआ है। उसकी शिकायत पर आरोपी छोटू साहु निवासी झुलेलाल नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फरियादी ने पुलिस को बताया कि वह अपने घर पर था। आरोपी छोटू साहू ने उसे फोन कर अपनी दुकान पर बुलाया। वह आकाशवा ी केंद्र के सामने आलू प्याज की दुकान पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही आरोपी ने गालियां देना शुरू कर दी। फरियादी ने पूछा की गालियां क्यों दे रहा है विवाद क्यों कर रहा है तो आरोपी और नाराज हो गया और बिना बात किए चाकु से हमला कर दिया।

अलमारी से लाखों का माल चोरी

डंदौर । चंदन नगर थाना डलाके में चोरों ने लाखों रूपए के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। घर के गेट पर ताला लगा रहा, चोर अंदर कमाल दिखा गए। चंदन नगर पुलिस के अनुसार घटना ग्रीन पार्क कॉलोनी सेक्टर ए की हैं। फरियादी अलाउद्दीन पिता चांद खान निवासी तराना की शिकायत पर चोरी का मकदमा दर्ज किया गया है। उनके रिश्तेदार अनीश के घर के गेट पर ताला लटका हुआ था। अंदर जाकर देखा तो घर में सामान जमीन पर बिरवरा हुआ था। अनीस के कमरे में रखी अलमारी भी अस्त व्यस्त थी। अनीश की पत्नी वजीफा ने अलमारी को चेक किया तो पता लगा कि एक सोने का हार, सोने की इयररिंग सेट, दो अंगुटियां, सोने की नथ, एक जोड़ सोने के टॉप्स, दो चादी की पायल, चादी के बिछुड़ी, छल्ला और 6 हाथ घड़ी सहित कुछ नगदी भी गायब है। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।

गार्ड की रिक्शा वाले ने ले ली जान

इंदौर । आजाद नगर इलाके में एक गार्ड की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। काम पर से साइकिल से लौट रहा था तभी रिक्शा वाले ने उसे चपेट में ले लिया। आजाद नगर पुलिस के अनुसार मृतक का नाम बाबूराव निवासी अभिलाष नगर है। घटना आजाद नगर थाना इलाके के पालदा में हुई है। कल शाम रमाशंकर नौकरी से घर जा रहे थे, वह साइकिल पर सवार था तभी तेज रफ्तार रिक्शा वाले ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर घायल हालत में रमाशंकर को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बची। इधर आजाद नगर क्षेत्र के शांतिनगर में बस चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए अनिता भारत मंडलोई निवासी स्कीम नं.९४ को टक्कर मार दी जिससे उन्हें चोट लगी और उन्होने पुलिस को शिकायत की। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के बायपास ब्रिज पर ट्रक चालक ने तेज गति से वाहन चलाते हए फरियादी अभिषेकसिंह बुंदेला निवासी अवंतिका नगर को टक्कर मार दी।



व्यापारी का उड़ाने वाला पकड़ाया,६ लाख के मोबाइल मिले

इंदौर। हीरानगर इलाके में ग ोश चतुर्थी के दिन मिटाई लेने पहुंचे एक व्यापारी का मोबाइल बदमाश ने जेब से निकाल लिया। उसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर आया। इसके बाद सिपाहीयों ने उसकी पहचान की। आरोपी को दबोचा तो उसके पास से 6 लाख कीमत के करीब १४ मोबाइल मिले हैं। टीआई पीएल मिश्रा की टीम ने कैलाश शर्मा के साथ हुई मोबाइल चोरी की वारदात के बाद आरोपी की पहचान कर नंदन पुत्र बिलोस राम पारदी निवासी व्यास नगर बस्ती थाना चंदन नगर को पकड़ा है। आरोपी ने सॉवरिया स्वीट्स से आईफोन १५ चोरी करना कबूला। इसके बाद पूछताछ में उसके पास से करीब १४ मोबाईल मिले है। उनकी कीमत ६ लाख रूपए बताई जा रही है।

अनंत चतुर्दशी झांकी चल समारोह की बिजली कंपनी कर रही विशेष तैयारी

सात किमी मार्ग पर लगेंगे १४० बिजली कर्मचारी

नगर प्रतिनिधि

इंदौर। शहर की शान अनंत चतर्दशी झांकी चल समारोह 17 सितंबर को लेकर मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्यत वितरण कंपनी के शहर वृत्त की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। चार संभाग और पांच जोन की टीमें इसके लिए कार्य कर रही है। 17 सितंबर की शाम निकलने वाली झांकियों के मार्ग पर विशेष कार्य किए जा रहे हैं। शहर के महत्वपूर्ण एवं गरिमामयी झांकी चल समारोह के लिए करीब 140 कर्मचारी, अधिकारी लगेंगे। इनमें 24 इंजीनियर रहेंगे। झांकी मार्ग का जोनल इंजीनियर, कार्यपालन यंत्री, उच्चदाब प्रभारी ने पैदल, दुपहिया वाहन पर

घुमकर निरीक्षण किया एवं बिजली संबंधी जरूरी कार्यों की सुची बनाकर कार्य कराए जा रहे है। इसमें ट्रांसफार्मर पर कवरिंग करने के साथ ही लाइनों को पर्याप्त ऊचांई पर करने, 11 केवी लाइनों पर पोल के जम्पर बदलने, केबलों को बांधने, लाइनों के पास झुकी हुई पेड़ों की टहनियों को



काटने इत्यादि जरूरी आदि कार्य शामिल है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के शहर अधीक्षण यंत्री श्री मनोज शर्मा ने बताया कि प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर के निर्देश पर दो सप्ताह का विशेष कार्यक्रम बनाकर झांकी मार्ग पर कार्य किए जा रहे हैं। एक सप्ताह हो गया हैं, आगामी

बतौर व्यक्त किए। आयोजन एसडीपीसी और

आईआईएमएस की ओर से किया गया। डॉ.

साह ने कहा कि फिजियोथेरिपी एक ऐसी

चिकित्सा हैं जिसके माध्यम से कई गंभीर

बीमारियों के जोखिम को कम किया जा

सकता हैं। वर्तमान में फिजियोथेरिपी का

उपयोग सर्जरी से बचाव के लिए किया जा

रहा हैं। अब इस चिकित्सा में नई तकनीकी

और आधुनिक मशीनें आ गई हैं। जिसके

माध्यम से लकवा, स्लिप डिस्क, गठिया,

नींद नहीं आना, वेरीकोज वेन का दबना

आदि समस्याओ ओर बीमारी के बचाव में

सहायक हैं। यहां तक कि यह चिकित्सा

गर्भावस्था में भी महिलाओं के लिए मददगार

हैं। इससे प्रसव में मदद मिलती है।

फिजयोथेरिपी चिकित्सा पद्धति से शरीर में

रक्त संचार ठीक से होता हैं।

फिर से शुरू करा दी गई।

स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी

डीसीपी विनोद मीणा ने मीडिया को

जानकारी देते हुए बताया कि एक पिता

अंकित सोनी के पास एक कॉल आया।

बात करने वाले ने बताया कि तुम्हारा बेटा

जिस स्कूल में पढ़ता है। उसमें बम लगा

हुआ है। जिसे कुछ देर में उड़ा दिया

जाएगा। उन्होंने इस मामले में तत्काल

डायल 100 को सूचना दी। सोनी का बेटा

पल्हर नगर के गुरुकुल में पढ़ता है।

अमित तीमर का स्थानांतरण पश्चिम क्षेत्र विद्यत वितर ा कंपनी इंदौर से श्री

अमित तोमर के स्थानांतर ा के पश्चात अपर आयुक्त वािाज्यकर श्रीमती रजनी सिंह को यहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

पांच छः दिनों में संपूर्ण कार्य करा लिए जाएंगे। झांकी मार्ग पर शहर के उत्तर संभाग, मध्य संभाग, पश्चिम संभाग एवं पूर्व संभाग की टीमें मालवा मिल से लेकर बजाज खाना, राजमोहल्ला क्षेत्र तक कार्यरत रहेगी। मिल क्षेत्र, गांधी हाल, पागनिस पागा, डीआरपी लाइन क्षेत्र, बजाज खाना, जेल रोड क्षेत्र, हेमिल्टन क्षेत्र, जवाहर मार्ग, एमजी रोड आदि 33/11 केवी ग्रिडों से संबद्ध फीडरों का विशेष मैंटेनेंस किया जा रहा हैं। दक्षिण क्षेत्र से जवाहर मार्ग की ओर झांकी मार्ग के लिए विशेषीकृत सप्लाय का इंतजाम भी रहेगा। अधीक्षण यंत्री श्री शर्मा ने बताया कि लगभग करीब 52 स्थानों पर वितरण ट्रांसफार्मरों का मैंटेनेंस कर विशेष रूप से कवर लगाए जा रहे हैं। बजाज खाना में बिजली कंपनी का झांकी व्यवस्था के लिए अस्थाई कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा।

नाला टैपिंग के लिए खोदे गड्ढे में गिरी बस

ऑटो चालक को बचाने के दौरान हादसा, क्रेन बुलाकर हटाना पड़ी बस

इंदौर। इंदौर के व्यस्ततम जवाहर मार्ग पर रविवार रात हादसा हो गया। इस हादसे में एक टेम्पो ट्रेवलर बस गड्ढे में जा गिरी। हादसे में डाइवर को मामुली चोटें आई हैं। क्रेन की मदद से गाड़ी को

सराफा पुलिस के मताबिक घटना पटेल मधशाला के पास की है। यहां पर रविवार रात एक

टेम्पो ट्रेवलर सडक के बीच बने गड्ढे में गिर गई। जवाहर मार्ग पर नाला टैपिंग के लिये नगर निगम ने

जुआ खेलते आधा दर्जन

इंदौर । रावजी बाजार पुलिस ने कल

एक फ्लैट में दबिश देंकर आधा

भी जब्त किए। रावजी बाजार

थाना पुलिस के अनुसार कल

मुखबिर से मिली सूचना के

आधार पर पागनीस पागा के

एक फ्लैट में दबिश दी।

दर्जन व्यापारियों को जुआ खेलते

पकड़ा है। उनसे २७ हजार रूपए

व्यापारी पकड़ाए

गड्ढा खोदा है। घायल डाइवर ने पुलिस को बताया कि सामने से

बहुत तेज स्पीड में था। उसे बचाने के लिए मैंने गाडी कंट्रोल की तो गड्डे में गिर गया।

अचानक एक ऑटो आ गया। वह

अलकापरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. डन्दौर

पता – 16 जी 1-6, नवरतनबाग, इन्दौर पंजीयन क्रं . : 336 दिनांक 01-10-1982 /क्यु. दिनांक : 10-09-2024 कं. /आमसभा/2024/क्यू.

साधारण सम्मिलन की सूचना

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि सोसायटी का साधारण सम्मिलन दिनांक 26.09.2024 के दिन के सुबह प्रातः 10.00 बजे से स्थान 16 जी 1–6, नवरतनबाग, इन्दौर पर आयोजित है। बैठक की अध्यक्षता श्री सुनील चौहान द्वारा की जायेगी। बैठक में निम्न विषय निर्णय हेतु रखे जायेगें। बैठक में आपर्क उपस्थिति साटर पार्थनीय है।

विषय सुची

- . गत आमसभा की पुष्टि करने पर विचार।
- . संचालक मंडल द्वारा संस्था के आगामी वर्ष 2024–25 के क्रियाकलापों का अनुमोदन करना। . संपरीक्षा रिपोर्ट तथा वार्षिक रिपोर्ट पर विचार।
- . आगामी वर्ष 2024–25 के लिये अनुमानित बजट स्वीकृत करना। 5. लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए संपरीक्षक की नियुक्ति करने पर विचार।
- B. संस्था की आदर्श उपविधि में अधिनियम के अद्यतन संशोधन पर विचार।
- 7. अन्य विषय जो उपविधि अनसार आने पर अध्यक्ष की स्वीकृति से विचार करना नोट : सर्व संबंधितों को सूचना नियमानुसार डाक से संस्था में ज्ञात पते पर भेजी गई जिसे न मिली हो इसे

भवदीय - अध्यक्ष/प्रबंधक अलकापुरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर

सार्वजनिक सूचना फॉर्म संख्या यूआरसी-2 अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत पंजीकरण के बारे में सूचना देने वाला विज्ञापन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 374(बी) और कंपनी (पंजीकरण के लिए प्राधिकृत)

नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार) . इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसार 8 अगरत, 2024 को रजिस्ट्रार को एक ओवेदन किया गया है कि एमिनेट एजुकेशनल एंड कर ोसाइटी को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत पंजीकृत किया जाए

ासाइटा का क्या आवानयम 2013 के अव्याय XXI के माना के अंतर्गत पंजाकृत किया जाएं। . कंपनी के मुख्य चहेश्य इस प्रकार हैं:-) भारत में स्कूल, कॉलेज, बोर्डिंग हाउस, स्कूल, रेस्तरां... वाणिज्य, कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग विकत्सा, फार्मेसी, नर्सिंग, संगीत, नृत्य, अभिनय, खेल, पत्रकारिता, प्रबंघन, समाज कल्याण और उद्योग ह क्षेत्रों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए कक्षाएं पढ़ाना, जो छात्रों को नियमित रू न मौखिक रूप से या डाक के माध्यम से दी जा सकती हैं और परीक्षा आयोजित करना और डिग्री दान करना और शिक्षा और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देना और कामकाजी पुरुषों और महिलाओं, शिक्षकों और कामकाजी पेशेवरों के कल्याण के लिए आवास का निर्माण और प्रदान करना। **b**) गरीबें और दलितों के लिए शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और चिकित्सा राहत का विकास, स्थापना भवार, सुविधा, संवर्धन, सुधार और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता और सामुदायिक कल्याण के किसे मी अन्य धर्मार्थ और विकासात्मक उद्देश्यों को आगे बढ़ाना। **c**) वाणिज्य, कला, विज्ञान, खेल, शिक्षा नुसंधान, सामाजिक कल्याण, धर्म, दान, पर्यावरण की सुरक्षा या किसी अन्य ऐसी वस्तु को बढ़ावा देन गुरायाम, सामाजिक करवान, वन, गैर परोपकारी गतिविधियाँ करना।

3. प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों की एक प्रति 11 एफ, एवआईजी, खजराना, रविशंकर शुक्ल नगर, मेन रोड इंदौर एमपी 452010 पर स्थित पंजीकृत कार्यालय में देखी

1. इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति इस ाने की तारीख से 21 दिनों के भीतर केंद्रीय पंजीकरण केंद्र, भारतीय कॉर्पोरेट मामद । जोंट नंबर 6, 7, 8 सेक्टर 5 आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हुरियाणा), पिर

<mark>220</mark>50 में रजिस्ट्रार को लिखित रूप में अपनी आपत्ति बता सकता है, साथ ही <mark>इसकी एक</mark> प्रति रूपजीकृत कार्यालय में भी भेज सकता है। दिनांक 10 सितंबर, 2024 समीर हुसैन मीर, प्रस्तावित निदेशक

तिरुपति स्टार्च एवं केमिकल्स लिमिटेड

CIN: L15321MP1985PLC003181 पंजीकृत कार्यालय : श्री राम चैंबर्स, 12, अग्रवाल नगर मेनरोड, इंदौर-452001 (म.प्र.) फोन : 0731–4905001, 4905002, ईं-मेल : tirupati@tirupatistarch.com

वेब पोर्टल: www.tirupatistarch.com 38वीं वार्षिक आम बैठक एवं रिमोट ई-मतदान सचना

एतद द्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, २०१३ और उसके तहत बने नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('SEBI') (सूचीकृत आवश्यकताएँ और प्रकटीकरण नियमावली) विनियम, २०१५ के साथ-साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('MCA') और SEBI द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों के सभी लागू प्रावधानों के अनुसार, तिरुपति स्टार्च एवं केमिकल्स लिमिटेड ('कंपनी') की **38वीं वार्षिक आम बैठक ('AGM') सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को** अपराह्न 1:00 बजे (IST) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय- श्री राम चैंबर्स, 12, अग्रवाल नगर मेनरोड, इंदौर-452001 (म.प्र.) पर भौतिक रूप से तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (OAVM) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रेषित किये गये AGM नोटिंस में

दर्शाए गए व्यवसायों पर चर्चा की जाएगी। MCA परिपत्रों और SEBI परिपत्रों के अनुपालन में, AGM का नोटिस और 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई हैं जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉज़िटरीज़ के साथ पंजीकत हैं। सदस्य कपया ध्यान दें कि AGM नोटिस और 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.tirupatistarch.com पर भी उपलब्ध है। यह नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज (बीएससी लिमिटेड) की वेबसाइट www.bseindia.com पर और CDSL की वेबसाइट www.evotingindia.com से भी प्राप्त की जा सकती है।

कम्पनी अधिनियम, २०१३ की धारा १०८ और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, २०१४ के नियम 20 और SEBI (सूचीकृत आवश्यकताएँ और प्रकटीकरण नियमावली) विनियम, 2015 के विनियमन ४४ के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- AGM नोटिस में दर्शाए गए व्यवसायों पर मतदान रिमोट ई-मतदान सविधा के माध्यम से किया जाएगा, जिसे सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) द्वारा www.evotingindia.com पर रिमोट ई-मतदान अवधि के दौरान और AGM के दौरान
- रिमोट ई-मतदान सविधा **शकवार. २७ सितंबर. २०२४ को सबह ९:०० बजे (IST)** से शरू होगी और रविवार, 29 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (IST) पर समाप्त होगी। इसके बाद ई-मतदान सविधा बंद कर दी जाएगी।
- 3. कंपनी ने **सोमवार, 23 सितंबर, 2024** को "कट-ऑफ तिथि" के रूप में निर्धारित किया है, ताकि AGM में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र सदस्यों की पहचान की जा सके।
- १. सदस्यों के मतदान के अधिकारों की गणना उनकी अंशधारी पूंजी में हिस्सेदारी के अनुसार की जाएगी। एक बार किसी सदस्य द्वारा रिमोट ई-मतदान के माध्यम से किसी प्रस्ताव पर मतदान किया गया है, तो बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, तो उसे इस बैठक की सूचना केवल जानकारी के उद्देश्य से मानना चाहिए।
- . बैठक में मतदान के लिए पोलिंग पेपर और ई-मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, बैठक में उपस्थित सदस्य जो पहले से रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान नहीं कर चके हैं. वे बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। बैठक में पहले से रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य भी शामिल हो सकते हैं लेकिन उन्हें पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। 6. कोई भी व्यक्ति जो इस नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कट-ऑफ
- तिथि (सोमवार, 23 सितंबर, 2024) के अनुसार कंपनी का सदस्य बनता है, उसे नोटिस में प्रथम बार उपयोगकर्ता के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पहले से CDSL के साथ ई-मतदान के लिए पंजीकृत है, तो वह मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
- सदस्यों से अनुरोध है कि वे AGM के नोटिस में दी गई रिमोट ई-मतदान और AGM के संबंध में विस्तृत निर्देशों को ध्यानपूर्वक देखें।
- 8. जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे अंकित कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को निर्धारित फॉर्म भरकर अपना आवेदन प्रस्तुत करें, जो उसकी वेबसाइट www.ankitonline.com या कंपनी की वेबसाइट www.tirupatistarch.com पर उपलब्ध है। जिन सदस्यों के पास डिमैट रूप में शेयर हैं, वे अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ सीधे अपने ई-मेल पते को पंजीकृत / अपडेट करने का अनुरोध करें।
-). ई-मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतों को **श्री राकेश दलवी**, सीनियर मैनेजर, सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL), ए-विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्युचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंडस, एन.एम, जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-४०००१३ पर या ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेजें या टोल-फ्री नं. १८०० २१ ०९९११ पर कॉल करें।

SEBI (सूचीकृत आवश्यकताएँ और प्रकटीकरण नियमावली) विनियम, २०१५ की विनियमन ४२ के प्रावधानों के अनुसार, सदस्य रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 से सोमवार, 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिवस समावेशी) तक AGM के उद्देश्य के लिए बंद रहेगें।

दिनांक: 09.09.2024

बोर्ड के आदेशानसार तिरुपति स्टार्च एवं केमिकल्स लिमिटेड अनुराग कुमार सक्सेना



पुलिसकर्मी काम के साथ साथ अपनी सेहत

का भी ख्याल रखें – डॉ. महेश साहू

इंदौर। पुलिसकर्मियों को अधिक भाग दौड़

का कार्य करना पडता हैं या कभी - कभी

लगातार एक ही जगह पर खड़े रहना भी पड़ता

हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती हैं कि

पुलिसकर्मियों को पानी भी उपलब्ध नहीं होता

है। इस वजह से उनके शरीर में या तो तरलता

की कमी हो जाती हैं या मांसपेशियों में खिंचाव

होने से शारीरिक समस्याएं खडी हो जाती हैं।

जैसे जोडो में दर्द, कमर दर्द, फ्रोजन शोल्डर,

माइग्रेन आदि। इस स्थिति में हर पुलिसकर्मी

को वर्ष में कम से कम दो बार अपनी बॉडी का

यह विचार वरिष्ठ फिजियोथेरिपिस्ट डॉ.

महेश साहू के हैं जो उन्होंने विश्व

फिजियोथेरिपी दिवस पर डीआरपी लाईन

स्थित पुलिस हॉस्पिटल में आयोजित

निशुल्क फिजयोथेरेपी शिविर में मुख्य वक्ता

इंदौर। पुलिस को एरोडम इलाके के

एक निजी स्कूल में बम की सूचना मिली।

शिकायतकर्ता पिता ने बताया कि उनके

मोबाइल पर स्कुल को बम से उड़ाने की

धमकी मिली है। पुलिस तत्काल मौके पर

पहुंची। बम निरोधी दस्ते को भी मौके पर

बुलाया गया। पूरे स्कूल से बच्चों को बाहर

निकाल लिया गया। इसके बाद चैकिंग की

गई। हालांकि पूरे परिसर में कोई बम नहीं

मिला। कुछ देर के बाद बच्चों की क्लासेस

चेकअप कराना चाहिए।

प्लंबर फांसी के फंदे पर झूला

इंदौर । खजराना इलाके में नल फिटिंग का काम करने वाले एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसने खुद्कुशी क्यों की है यह पता नहीं लगा है। बताया जा रहा है कि वह नशा करके घर आया था। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम निर्मल पिता सीताराम निवासी सुरज नगर खजराना है। रिश्तेदार सुशील ने बताया कि निर्मल प्लंबर का काम करता था। कल शराब के नशे में धृत घर आया और कमरे में चला गया। काफी देर तक जब वह नहीं निकला तो परिजन कमरे में पहुंचे जहां वह फंदे पर लटका हुआ मिला। उसने खुद्कुशी क्यों की है परिवार के लोग यह नहीं बता पा रहे हैं। उसके दो बच्चे हैं। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

गांजे के साथ पकड़ाई महिला

इंदौर । सदर बाजार पलिस ने एक महिला तस्कर को नशे के साथ पकडा है। उसके बारे में लगातार पुलिस को शिकायत मिल रही थी। कल जब उसे पकडा गया तो 600 ग्राम से ज्यादा गांजा उसके पास मिला है। सदर बाजार थाने में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक कुलदीप सिंह को मुखबिर ने सचना दी थी जिसके आधार पर रामबाग इलाके से जया नामक महिला को पकड़ा गया। महिला पुलिस ने तलाशी ली तो जया के पास ६१४ ग्राम गांजा मिला। जिसकी कीमत साढे छः हजार रुपए है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वह खुद ही नशेड़ियों को गांजे की पुड़ियाएं बनाकर बेचती थी।

अंकित सोनी की शिकायत पर कुछ ही देर

में यहां अन्नपूर्णा पुलिस की गाड़ी पहुंची।

अफसरों को जानकारी देने के साथ ही

बीडीएस को बुलाया गया। पुलिस ने बच्चों

और स्टाफ को बाहर निकालकर जांच

की। यहां पर चैकिंग के बाद कोई बम नहीं

मिला। कुछ देर बाद सभी बच्चों की

क्लास शुरू कर दी गई। इस मामले में

अंकित सोनी की शिकायत पर अज्ञात

कॉल करने वाले पर केस दर्ज किया है।

MO IRSHAD S/O KHALII

Address: 30, Ward No. 36 Indira Colony Nurani Masjid Ke Pass, Bagh Bhayan Khandwa (M.P.)

Change in Name

IMOHAMMED IRSHAD S/O

KHALIL URREHMAN hereby

declare that I have changed my

name as MO IRSHAD S/O KHALIL

URREHMAN so, from now and in

future I will be known by my new

NAME CHANGE

Naveen Gadge F/o Ruvya Gadge herebly declaire that we have changed our daughter's name as **Rudranshi Gadge** D/o **Naveen** Gadge from now and in future she will known by her new name **Rudranshi Gadge** D/o Naveen Gadge

> Add- 142 Sanskriti Smart City indore

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अवनी सुहास शुक्ला (Avani Suhas Shukla) पिता श्री सुहास शुक्ला (Suhas Shukla) था जो कि अब बदलकर अवनी शुक्ला (Avani Shukla) पिता श्री सुहास शुक्ला (Suhas Shukla) हो गया है। अतः भविष्य मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाए

अवनी शुक्ला पिता श्री सुहास शुक्ला पता - 78, सिद्धि पुरम कॉलोनी, गोपुर चौराहे के पास इंदौर, मध्य प्रदेश, पिन कोड - ४५२००९

IN The Court Of X Civil Judge Class-1, District Court Indore Presiding Officer : हर्षिता सिंगार

संलग्न नोटिस प्रकाशन हेत् प्रकरण क्रमांक (MIC SUC- 191/2024)

601 - डी ब्लॉक, कासा ग्रीन्स, नियर अंसल टाउनशिप तलावली चांदा, मांगलिया, इन्दौर ने अपने पति संदीप सिंह पता स्व. इकबाल सिंह, निवासी - 601 - डी ब्लॉक, कासा ग्रीन्स, नियर अंसल टाउनशिप, तलावली चांदा, मांगलिया, इन्दौर की राशि / संपत्ति हेत उत्तराधिकार अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 16.10.2024 को नियत है । यदि किसी व्यक्ति कं उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकार अथवा अभिभावक / संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जार्र किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 16.10. 2024 क इस न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम उपस्थित रहें। सूचना उपरांत, यदि अनुपस्थित रहे त प्रकरण की सनवाई एक पक्षीय की जाकर प्रकरण व

जिला न्यायालय इंदौर म.प्र

(1) सर्वसाधारण

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक आवेदिका गुरमीत कौर पति स्व. संदीप सिंह, निवासी निराकरण किया जावेगा । यह आज तारीख 09.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिय

व्यापारिक क्षेत्रों में व्यवस्थित ट्रैफिक के लिए एक्शन प्लान लागू करेगी पुलिस यातायात विभाग के अधिकारियों ने किया दौरा, व्यापारियों से विचार-विमर्श

इंदौर। व्यापारिक क्षेत्रों में यातायात सुव्यवस्थित हो इसके लिए पुलिस एक्शन प्लान को क्रियान्वित करेगी। इसी संदर्भ में व्यावसायिक क्षेत्रों में यातायात दबाव को कम करने और व्यावसायिक संस्थानों के वाहन निर्धारित पार्किंग में करने को लेकर यातायात पुलिस ने सोमवार को बाजारों के दौरा किया। इस दौरान यातायात अव्यवस्थित स्थलों और पार्किंग के लिए 🎹 उपयुक्त स्थानों के संदर्भ में व्यापारिक संगठनों से एडिशनल पुलिस कमिश्नर यातायात अरविंद तिवारी ने विचार-विमर्श किया।

सबसे व्यस्त ट्रैफिक वाले राजबाड़ा से कपड़ा मार्केट के क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए सोमवार को यातायात पुलिस के एडिशनल आयुक्त अरविंद तिवारी ने



यशोदा माता मंदिर, शिव विलास पैलेस, चौक पार्किंग और खजूरी बाजार, भण्डारी पिपली बाजार, सराफा के व्यावसायिक स्कूल पर बने एलिवेटेड पार्किंग की स्थिति क्षेत्र के स्थायी दुकानदारों की वाहन पार्किंग का जायजा लिया। उन्होंने अवैध पार्किंग

भूतल पार्किंग का इस्तेमाल न होने और वहां कचरे गंदगी के आलम को देखकर वहां अविलम्ब व्यवस्था के लिए जिम्मेदारों को आगाह किया। यशोदामाता मंदिर और जबरेश्वर महादेव मंदिर के व्यवसायियों की मांग पर पुराने एसपी ऑफिस पर कार-स्कूटर पार्किंग बनाने के लिए मौका मुआयना किया। उन्होंने कबड्?डी मैदान से निकासी वाले भाग का अवलोकन भी किया। गोराकुण्ड से मल्हारगंज के बीच के वाहनों की पार्किंग के लिए शारदा स्कूल के पीछे खुली भूमि का उपयोग करने के प्रस्ताव को भी रेखांकित किया।

टिप्पणी:- कपया ध्यान दे:-पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई र